### LORENZINI APPARELS LIMITED

(An ISO 9001:2015 Certified Company)

CIN: L17120DL2007PLC163192



Date: 17th February, 2025

To,

The Secretary	The Secretary
Listing Department	Listing Department
BSE Limited	National Stock Exchange of India Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra (E),
Dalal Street, Mumbai-400001	Bandra Kurla Complex, Mumbai-400005
Scrip Code: 540952	Symbol: LAL

Subject: Newspaper advertisement for dispatch of Notice of Postal Ballot

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to the Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclosed herewith copies of the notice published in the Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) of Sunday, 16 February, 2025 regarding electronic dispatch of Notice of Postal Ballot.

This information will also be hosted on the Company's website.

We request you to kindly take this on your record and oblige.

Thanking You,

For and on Behalf of

**Lorenzini Apparels Limited** 

Sandeep Jain

(Managing Director & Chief Financial Officer)

DIN: 02365790

**Enclosed- as above** 

**FE SUNDAY** 

(Rs. in Lakhs)

## LORENZINI APPARELS LIMITED

CIN: L17120DL2007PLC163192 Reg off: C-64, OKHLA INDUSTRIAL AREA PHASE-I NEW DELHI -110020 E-mail: lorenziniapparels@yahoo.co.in, Website: www.monteil.in, Tel No: +011-40504731

POSTAL BALLOT NOTICE AND REMOTE E-VOTING

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 108 & 110 of the Companies Act 2013 and other applicable provisions, if any, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 (Listing regulations), Secretarial Standard-2 on General Meetings (the SS-2) the Company as on Saturday, February 15, 2025 completed the dispatch of the postal ballot notice, through electronic mail to the members whose email IDs are registered in the records of depository participants as on Friday, February 14, 2025 for seeking approval of the shareholders of the Company by postal ballot, including voting by electronic means or, for the following matters:

Description of the Resolution(s) To Consider and Approve appointment of Mrs. Sapna Khanna (DIN: 10876163) as an Independent Director of the Company. To Consider and Approve Re-Appointment of Mr. Yogesh Kumar as an Independent Director (Din: 08722626) for a Second Term of Five Years

The Company has engaged the services of Central Depository Securities Limited (CDSL) for the purpose of providing e-voting facility to all its members. Members are requested to note that the voting through postal ballot including voting by electronic mode shall commence from Sunday, February 16, 2025 at 09.00 AM and ends on Tuesday, March 18, 2025 at 5.00 PM. The Board of Directors has appointed M/s Anuj Gupta Associates, Practicing Company Secretaries (Membership Number ACS: 31025 & COP 13025) as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to cast a vote through the remote e-voting not later than 05:00 PM on Tuesday, March 18, 2025. All members may kindly note that yoting on the aforesaid resolution done through e-voting after the aforesaid date shall not be considered valid. Any member who does not receive the notice may either send an email to or may apply to the registrar and Share transfer Agent of the Company/Company and obtain a duplicate notice. The notice of postal ballot has also been placed on the website of the company (i.e.www.monteil.in) The result of the voting by postal ballot will be announced on or before Thursday, March 20, 2025, at the registered office of the Company. The result will be displayed at the registered office and on the website of the company and intimate stock exchange on which the shares of the company are listed. In case you have any queries or issues regarding e-voting, shareholders are requested to contact, Skyline Financial Services Pvt. Ltd. at D-153A. 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, email: info@skylinerta.com.

By Order of the Board of Directors Sandeep Jain (Managing Director) Lorenzini Apparels Limited DIN: 02365790 exus

# **LEXUS GRANITO (INDIA) LIMITED**

Regd Office: Survey No. 800, Opp. Lakhdhirpur Village Lakhdhirpur Road, N. H. 8A, Tal. Morbi Lakhdhirpur Rajkot GJ 363642 IN; CIN: L26914GJ2008PLC053838 Phone: +91 7567500110; Email: cs@lexustile.com; Website: www.lexustile.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON DECEMBER 31, 2024

S.	Particulars	Financial Results							
No.	(15689.10096895V)		Quarter End			ths ended	Year ended		
- 11		31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024		
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)		
1	Total Income from Operations	1921.91	1,753.77	2677.94	5455.44	9067.82	11,851.10		
2	Net Profit/(Loss) for the period	-0.49	-198.58	-354.21	-585.94	-778.57	-1,555.77		
	(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	2							
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	-0.49	-198.58	-354.21	-585,94	-778.57	-1,592.40		
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	7.89	-187.28	-389.00	-555.63	-842.60	-1,657.94		
5	Total Comprehensive Income for the period	0.71	1.43	1.31	6.40	7.35	18.03		
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- each)	2019.07	2019.07	2019.07	2019.07	2019.07	2019.07		
7	Earnings per share (Face value of ₹ 10/- each)	0.04	-0.93	-1.95	-2.75	-4.33	-8.44		
	Basic (not annualized for quarters)	0.04	-0.93	-1.95	2.75	-4.33	-8.44		
	Diluted (not annualized for quarters)	0.04	-0.93	-1.95	2.75	-4.33	-8.44		

1. The above unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved, taken on record by the Board of Directors of the Company at their respective meeting held on Friday, February 14, 2025.

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the quarter ended December 31, 2024 along with Limited Review Report of the Statutory Auditor are available on the websites of the Company at www.lexustile.com and website of National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) For Lexus Granito (India) Limited

Anilkumar Babulal Detroja Chairman and Managing Director DIN: 03078203

SEL Manufacturing Company Limited Sel [CIN: L51909PB2000PLC023679] Regd. Office: 274, Dhandari Khurd, G.T. Road, Ludhiana 141014 (Punjab) Tel.: +91-161-7111117, Fax: +91-161-7111118. Website: www.selindia.in, Email: cs@selindia.in

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter

& Nine Months Ended December 31, 2024

Standalone Quarter ended Year to date Quarter ended Particulars 1 4 1 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2023 (Un-audited) (Un-audited) (Un-audited) 457.44 3,018.50 1,838.44 Total Income from operations 2. Net Profit(+)/ (Loss)(-) for the period (before Tax, Exceptional and/or (4.391.90)(12.950.50)(3,838.61)Extraordinary items Net Profit(+)/ (Loss)(-) for the period before Tax (after Exceptional (1,598.71)(9,066.60)(2,793.21)and/or Extraordinary items) Net Profit(+) /(Loss)(-) for the period after tax (after Exceptional and/or (1,598.71)(9.066.60)(2,793.21)Extraordinary items) Total Comprehensive Income(+)/(Loss)(-) for the period [Comprising. (2.141.42)(10,651.96)(3,236.01)Profit (Loss) for the period (after tax) after Minority Interest and Other Comprehensive Income (after tax)] 3,313.47 Equity Share Capital 3,313.47 3,313.47 Other Equity (Reserves) 0.00 (19,604.34)0.00 8. Earnings per Share (EPS) (of Rs.10/- each) (in Rs.) (not annualised) (4.82)(27.36)a) Basic (8.43)b) Diluted (4.82)(27.36)(8.43)

Notes: The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 14th February, 2025. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the website of the company at www.selindia.in and Stock Exchange's website i.e. www.nseindia.com & www.bseindia.com further the full Unaudited Financial Results can also be accessed by scanning the For and on behalf of Board of directors following Quick Response Code. (Naveen Arora) Whole Time Director DATE : 14-02-2025

PLACE: LUDHIANA

DIN: 09114375

Quarter ended Year to date upto Quarter ended Year ended

MAGNITE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED CIN No: U45309PN2022PTC207434

Phone: 020-66850000 Email: secretarial@solitaire.in, Website; www.themdpl.in Phone: 020-66850000 Email: Secretarian Source and nine months ended December 31, 2024
[Rs. In Lakhs] Quarter Ended **Particulars** No. December 31, 2024 December 31, 2023 March 31, 2024 Unaudited Unaudited Audited Total Income from Operations Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or (140.73)(772.75) (1009.80)Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or (140.73)(772.75)(1009.80)Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or (105.31)(755.65) (578.26)Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive (755.65) (578.26)Income (after tax)] Paid-up Equity Share Capital 1.00 1.00 1.00 Reserves (excluding Revaluation Reserve) Security Premium Account (2266.26) (1974.35) (1828.03) Net worth Paid up Debt Capital / Outstanding Debt Outstanding Redeemable Preference Shares (78.75)(69.95) Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -(1053.13)(7556.50) (a) Basic (5782.60) (1053.13) (5782.60) (b) Diluted (7556.50)Capital Redemption Reserve Debenture Redemption Reserve 0.97 0.58 0.40 Debt Service Coverage Ratio 0.96 17 Interest Service Coverage Ratio 0.98 0.88

1 The above Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective

2 The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the BSE Limited ("Stock Exchange" under regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com and on the website of the Company at www.themdpl.in. 3 For the other line items referred in regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements). Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange i.e. BSE Limited and can be accessed.

4 This extract of Financial Results has been prepared in accordance with the requirement of Regulation 52 of SEBI Listing Regulations, read with Chapter 1 of Operational Circular bearing reference no. SEBI/HO/DDHS/DDHS\_Div1/P/CIR/2022/000000103 dated July 29, 2022 ("Circular").

**EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS** 

FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER 2024

Unaudited

31st

December

2024

Current

Quarter

ended

3.92

3.92

3.92

3.92

50.00

7.84

7.84

31st

December

2024

Year to

figures

11.82

11.82

11.82

11.82

50.00

23.64

23.64

For Magnite Developers Private Limited

Bhushan Vilaskumar Palresha Director DIN: 1258918

> Rs. in Lakhs except EPS Unaudited Audited

> > March.

2024

Previous

Year

ending

8.97

8.97

8.97

50.00

17.94

17,94

31st

2023

Previous

Year

corresponding

1.96

1.96

1.96

1.96

50.00

3.92

3.92

VISHAL THAKKAR MANAGING DIRECTOR

DIN:09798551

For THE INDIAN LINK CHAIN MFRS. LTD.

Quarter

December

### MORGAN VENTURES LIMITED CIN: L08106DL1986PLC025841

Regd. Office: 37, Ring Road, Lajpat Nagar - IV, New Delhi 110024 Ph. No. 01126432601, Website-www.morganventures.in, Email -secretarial@govalgroup.com EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024 (Rs. In Lakhs except EPS)

STANDALONE

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Mon	Year Ended	
		31.12.2024 (UnAudited)	30.09.2024 (UnAudited)	31.12.2023 (UnAudited)	31.12.2024 (UnAudited)	30.09.2023 (UnAudited)	31.03.2024 (Audited)
1.	Total income from operations	1445.75	1254.87	456.08	3428.45	1209.58	2300.66
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional Items)	1240.72	871.14	245.53	2521	674.51	1386.78
3.	Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (after Tax, Exceptional Items)	928.45	549.75	183.77	1891.42	513.72	994.52
4.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit! (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)		0	0	0	0	0
5.	Equity Share Capital	994.93	994.93	994.93	994.93	994.93	994.93
6.	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year	7265.62	6424.78	4893.40	7265.62	4893.40	5374.20
7.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing & discontinued operations) 1. Basic: (in Rs.) 2. Diluted: (in Rs.)	9.38 9.38	5.55 5.55	1.86 1.86	19.11 19.11	5.19 5.19	10.05 10.05

meeting held on February 14, 2025 and reviewed by the Statutory Auditors. The above is an extract of the detailed format of the Standalone Results for the guarter and Nine Months ended December 31, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these Financial Results are available on the Stock Exchange website. www.bseindia.com and on the Company's website www.morganventures.in For and on behalf of Board

Sd/-Place: New Delhi Mr. Prayas Dubey Dated: February 14, 2025 Company Secretary

#### 8 SRI ADHIKARI BROTHERS TELEVISION NETWORK LIMITED CIN: L32200WH1994PLC083653

Regd. Office: 6th Floor, Adhikari Chambers, Oberoi Complex, New Link Road, Andheri (West), Mumbai 400 053. Tel.: 022:26396400/022-40230000, Fax: 022:26395459 Email: investorservices@adhikaribrothers.com Website: www.adhikaribrothers.com EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DEC. 2024. (7 In Lakhs, Except EPS)

Sr.	( months and )	Standalone For Guarter Ended Year Ended			For	Year Ended			
No.	Particulars	31-Dec-24	30-Sep-24	31-Dec-23 (Un-Audited)	31-Mar-24 (Audited)	31-Dec-24	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	31-Dec-23	31-Mar-24 (Audited)
1	Total income from operations	244,17	126,71	X X	178.79	244.17	126.71	31.50	325.90
2	Net Profit(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	11.55	17.15	-529.96	-2,160.20	-6.40	-8.97	-521.92	-2,109.65
3	Net Profit(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-2,272.73	17.15	-529.86	-2,160.20	-2,290.68	-8.97	-521.92	-2,109.65
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax. (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,272.73	17.15	-529.86	-2,160.20	-2,278.85	-8.97	-521.92	-2,126.58
5	Total Comprehensive Income for the period after tax   Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	-2,272.73	17.15	-529.86	-2,160.20	-2,278.85	-8.97	-521.92	-2,126.58
6	Paid-up equity share capital (Face Value of Re. 10/- each)	2,537.31	2,537.31	3,494.45	2,537.31	2,537.31	2,537.31	3,494.45	2,537.31
	Reserves (Excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				-1,449.08				-1,408.68
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) Basic Diluted	-8.96 -8.96	0.07	-1.52 -1.52	-8.51 -8.51	-9.03 -9.03	-0.04	-1.49 -1.49	-8.41 -8.41

approved by the Board of Directors at its meeting held on Friday, 14th February, 2025. The Statutory Auditors have carried out the review of these Standalone & Consolidated Financial Results for the period ended December 31, 2024 and the same are made available on website of the company www.adhikaribrothers.com and website of BSE Limited www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited on www.nseindla.com where shares of the Company are listed. The Company is operating in a single segment viz. content production and distribution. Hence the results are reported on a single

The Resolution Plan submitted by M/s. SAB Events and Governance Now Media Limited, M/s. Marvel Media Private Limited, Mr. Ravi Adhikari and Mr. Kailasnath Adhikari for the Company has been approved by the Hon'ble NCLT, Mumbai bench vide its

order dated December 8, 2023. The said approved Resolution Plan contains the details and timelines for settlements of various financial creditors (secured creditors) and operational creditors, statutory dues and litigation claims of the Company. The Company has given the financial impact of the said approved Resolution plan by reducing its various liabilities / share capital, writing off assets and issue of fresh equity share capital in F.Y. 2023-2024. & In the during the current Period Dec 2024. As per the Resolution Plan approved by Honble NCLT order dated December 8, 2023, the Company has sold one of its

and other cost pertaining to such sale of asset amounting to Rs. 2284.28 Lakhs is shown as an Exceptional item during the quarter The Standalone & Consolidated Unaudited Financial Results for the period ended Dec 31, 2024, have been prepared in accordance with recognition and measurement principles laid down in the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally

immovable properties located in Kandivali (Mumbai) during the quarter ended December 31, 2024. The loss on sale of such asset

The "Other Equity" balances are only given on the basis of audited year end figures of standalone and consolidated financials of

The figures have been re-grouped / re-arranged / reclassified / reworked wherever necessary to conform to the current year

For Sri Adhikari Brothers Television Network Limited.

Place : Mumbal Date: 14th February, 2025

accounting treatment.

RAVI GAUTAM ADHIKARI CHAIRMAN DIN: 02715055

## **UFM INDUSTRIES LIMITED** CIN: L15311AS1986PLC002539

Regd. Office: Meherpur, Silchar, Assam - 788015; Phone: 03842 224822/996; Fax: 03842 241539

Email: ufmindustries@rediffmail.com; ufm.investorgrievances@gmail.com;

Website: ufmindl.weebly.com; ( in Lakhs) Extract of the Unaudited Financial Results for the guarter and period ended Dec 2024

Particulars	31.12.2024 Unaudited	31.12.2024 Unaudited	30.09.2024 Unaudited	31.03.2024 Audited
Total Income from Operations	4,416.78	11,290.69	2,109.18	9,652.02
Net Profit/(Loss) before tax and exceptional items	21.93	80.02	29.60	143.38
Net Profit/(Loss) before tax after exceptional items	21.93	80.02	29.60	143.38
Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	17.02	53.15	18.29	105.22
Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax)	17.02	53.15	18.29	105.71
Paid up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	59,32,600	59,32,600	59,32,600	59,32,600
Reserves (Excluding Revaluation Reserve)	1,583.92	1,583.92	1,331.39	1,361.36
Securities Premium Account	162.50	162.50	162.50	162.50
Net Worth	2,238.87	2,238.87	2,221.85	2,185.51
Paid Up Debt Capital/ Outstanding Debt	1,794.67	1,794.67	1,688.19	1,013.58
Earnings Per Share (of ₹10/- each)	Q.			3
-Basic and Diluted (₹)	0.29	0.24	0.31	1.77
NOTES TO SINANCIAL DESIUTS.	The state of the s	A DOLLARD OF	Inio Process	-

NOTES TO FINANCIAL RESULTS:

1. The above results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 14th February, 2025. The Statutory Auditors have carried out an audit of the above results.

2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial results are available on the Stock Exchange website and also on the Company's website www.ufmindl.weebly.com



Date: 14.02.2025

By order of the Board For UFM Industries Limited Mahabir Prasad Jain

Managing Director DIN: 00498001

(Rs. in Lakhs)

TECHNOLOGY

#### Regd, Office: Capital Park, 4th Floor, Unit No. 4038 & 404, Plot No. 1-98/4/1-13, 28 & 29, Survey No.72. Image Gardens Road, Madhapur, Hyderabad - 500 081, Telangana, India. CIN: L72200TG1999PLC030997 Phone: +91 40 67234400 Fax: +91 40 67234800 E-mail: investors@ctepl.com Website: www.ctepl.com

CAMBRIDGE TECHNOLOGY ENTERPRISES LIMITED

UN-AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024

SI. No.	Particulars	Quarter ended	Nine Months ended	Quarter ended
NO.	N/165280WNS ::	31-Dec-24	31-Dec-24	31-Dec-23
1	Total income from operations	5,158.40	14,839.20	5,289.01
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(395.73)	(4,084.59)	947.33
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(395.73)	(4,084.59)	947.33
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(443.28)	(4,183.01)	888.87
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(214.36)	(3,887.91)	983.14
6	Equity Share Capital	1,963.10	1,963.10	1,963.10
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	9283.55 (as on l	March 31, 2024)	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing operations)		VC 00-52642-0-CL	WWW.
	Basic :	(2.26)	(21.31)	4.69
إركا	Diluted ;	(2.26)	(21.31)	4.69

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the period ended December 31, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Regulrements) Regulations, 2015. The full format of the said Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) at www.bseindia.com and www.nseindia.com and the Company's website at www.ctepl.com (weblink: https://resources.ctepl.com/pdfs/investors/Outcome BoardMeeting14022025.pdf) b) Extract from the Standalone unaudited financial results:

Particulars	Quarter ended	Nine Months ended	Quarter ended
11115530000000	31-Dec-24	31-Dec-24	31-Dec-23
Income from operations (net)	1,671.38	5,191.59	1,985.64
Profit / (Loss) before tax	(36.86)	446.02	51.38
Profit / (Loss) after tax	(85.44)	264.07	10.88
Total comprehensive income for the period	(78.36)	249.79	14.01
CHAN	APP C	e system of the same	and the second

Place : Hyderabad Date : February 14, 2025



For Cambridge Technology Enterprises Limited Dharani Raghurama Swaroop Whole-Time Director (DIN: 00453250)

D S KULKARNI DEVELOPERS LIMITED CIN No: L45201PN1991PLC063340

Regd Office: Unit # 301, 3rd Floor, Swojas One, Kothrud, Pune - 411038 Phone: 020-67166716 Email: cs.dskdl@ashdanproperties.in, Website: www.dskcirp.com Extract of Financial Results for the Quarter and nine months ended December 31st 2024

Sr.		100	Quarter Ended	Nine Mon	ths Ended	Year Ended	
No.	Particulars	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	March 31, 2024	
- 2	WESTER HAND SHAPE WITH	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from Operations	1414.10	390	4369.79	(a)	2823.91	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	143.15	(213.88)	452.10	(895.59)	(888.32)	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	143.15	(213.88)	452.10	(895.59)	(888.32)	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items )	143.15	(213.88)	452.10	(895.59)	(888.32)	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	143.15	(213.88)	452.10	(895.59)	(888.32)	
6	Paid-up Equity Share Capital	1000	1000.00	1000	1000.00	1000.00	
7	Other Equity	(14702.26)	(15151.73)	(14702.26)	(15151.73)	(15154.36)	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -  (a) Basic  (b) Diluted	1.43 1.43	(2.14) (2.14)	4.52 4.52	(8.96) (8.96)	(8.88) (8.88)	

Notes:

Date: 14.02.2025

Place: Pune

The Board of Directors has approved the above financial results for the quarter and nine months ended 31st December 2024 and its release at their meeting held on 14th February, 2025. The Statutory Auditors of the Company has carried out a Limited Review Report of the aforesaid results, filed with Stock Exchanges. This full format of the quarterly and nine months financial results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the website of the Company at www.dskcirp.com.

Bhushan Vilaskumar Palresha Managing Director DIN: 01258918



# The Sandur Manganese & Iron Ores Limited

Ward No.1, Sandur - 583 119, Ballari District, Karnataka; CIN: L85110KA1954PLC000759; Website: www.sandurgroup.com; Email ID: investors@sandurgroup.com; Telephone: +91 8395 260301; Fax: +91 8395 260473

Regd. Office: 'SATYALAYA', Door No. 266 (Old No.80), Behind Taluka Office, Palace Road,

**QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2024** 

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE

approved the unaudited standalone and consolidated financial results of the Company for the guarter and nine months ended 31 December 2024.

The Board of Directors of the Company, at its meeting held on 14 February 2025,

The financial results, along with the Limited Review Report issued by M/s. Deloitte Haskins & Sells (FRN: 008072S), the Statutory Auditor of the Company, have been made available on the website of the Company https://www.sandurgroup.com/quarterly-results and can be accessed by scanning the Quick Response (QR) code.

The same can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed - BSE Limited at https://www.bseindia.com/ and National Stock Exchange of India Limited at https://www.nseindia.com/.

Place: Bengaluru Date: 14 February 2025 for The Sandur Manganese & Iron Ores Limited

Bahirii Ajai Ghorpade **Managing Director** 

Note: The above intimation is in accordance with Regulations 47(1) and 52(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Year ended 9 Particulars

Date: 15.02.2025

Place: Morbi

Regd Office: 3rd Floor, S. No.-34, Near Inorbit Mall, Wadgaon Sheri, Pune - 411014

Notes meetings held on 14th February, 2025.

on the website at www.bseindia.com and on the website of the Company at www.themdpl.in.

Date : February 14, 2025 Place: Pune

Particulars

Net Profit (+)/Loss(-) for the period before tax

THE INDIAN LINK CHAIN MFRS. LTD. CIN No.: L47211MH1956PLC009882

Regd. Office: Office No. 2, Chandra Niwas Hirachand Desai Road Ghatkopar West, Opp. Ghatkopar New Post Office, Mumbai - 400086, | Tel. No. 022-22661013; Email: inlinch@hotmail.com Website: www.inlich.com

Total Income from operations (net) Net Profit (+)/Loss(-) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraodinary items tax

No

(after Exceptional and/or Extraodinary items) Net Profit (+)/Loss(-) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraodinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit/Loss for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] Paid-up equity share capital (face value of Rs 10/- per share)

Other Equity

a. Basic in Rs.

Diluted in Rs.

Earning per share

Notes: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Financial Results are available on the Stock Exchange websites: www.bseindia.com and on the wesite of the Company: https://www.inlinch.com/quarterly.html. The same can be accessed by scanning the QR Code provided below:


Place: Mumbai Date: 14-Feb-25





For DS Kulkarni Developers Limited















प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

## जनसता

## **LORENZINI APPARELS LIMITED** CIN: L17120DL2007PLC163192 Reg off: C-64, OKHLA INDUSTRIAL AREA PHASE-I NEW DELHI -110020

rels@yahoo.co.in, Website: www.monteil.in, Tel No: +011-4050473

POSTAL BALLOT NOTICE AND REMOTE E-VOTING

lembers of the Company are hereby informed that pursuant to Section 108 & 110 of the Companies Ac 2013 and other applicable provisions, if any, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 (Listing regulations), Secretarial Standard-2 on General Meetings (the SS-2) the Company as on Saturday, February 15, 2025 completed the dispatch of the posta ballot notice, through electronic mail to the members whose email 10s are registered in the records of depository participants as on Friday, February 14, 2025 for seeking approval of the shareholders of the Company by postal ballot, including voting by electronic means or, for the following matters:

Description of the Resolution(s)

To Consider and Approve appointment of Mrs. Sapna Khanna (DIN: 10876163) as an Independent Director of the Company. To Consider and Approve Re-Appointment of Mr. Yogesh Kumar as an Independent

Director (Din: 08722626) for a Second Term of Five Years The Company has engaged the services of Central Depository Securities Limited (CDSL) for the purpo of providing e-voting facility to all its members. Members are requested to note that the voting through postal ballot including voting by electronic mode shall commence from Sunday, February 16, 2025 at 09.00 AM and ends on Tuesday, March 18, 2025 at 5.00 PM. The Board of Directors has appointed M/s

nui Gupta Associates, Practicing Company Secretaries (Membership Number ACS: 31025 & COI 130(25) as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to cast a vote through the remote e-voting not later than 05:00 PM or Tuesday, March 18, 2025. All members may kindly note that voting on the aforesaid resolution done brough e-voting after the aforesaid date shall not be considered valid. Any member who does not receive the notice may either send an email to or may apply to the registrar and Share transfer Agent of the Company/Company and obtain a duplicate notice. The notice of postal ballot has also been placed on the website of the company (i.e. www.monteil.in) The result of the voting by postal ballot will be announced or or before Thursday, March 20, 2025, at the registered office of the Company. The result will be displayed a the registered office and on the website of the company and intimate stock exchange on which the share of the company are listed. In case you have any queries or issues regarding e-voting, shareholders are requested to contact, Skyline Financial Services Pvt. Ltd. at D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area Phase-I, New Delhi-110020, email: info@skylinerta.com.

Sandeep Jain (Managing Di orenzini Apparels Limited

वित्तीय परिणामों (स्टैंड अलोन) को मंजूरी दी।

निर्गमित कर तालिका में राशि 6 0 दिवस के भीतर चकाने के लिये कहा गया था।

तिथिः फरवरी 14, 2025

ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता/ जमानतदार का नाम /ऋण खाता सं

( सह-ऋणी ), सुखदेव शर्मा ( सह-ऋणी )

ऋण खाता सं: 19001060101003462

विकास कुमार पाठक ( ऋणी ), पीतांबर

पाठक ( सह-ऋणी ). श्रीमती रूबी पाठक

ऋण खाता सं.: L9001060119778486 &

सोनाली रोडवेज (ऋणी ). प्रयाम बाब सिंह

( सह-ऋणी ), लक्ष्मी सिंह ( सह-ऋणी )

ऋण खाता सं.: L9001060127186549 &

कुमार ( सह-ऋणी ), राजेंद्र सिंह

**पारादीप फर्टिकेम इंडस्ट्रीज (ऋणी )**, पंकज

स्थानः दिल्ली दिनांकः १५ फरवरी २०२५

ऋण खाता सं.: L9001060101002352

सचिन शर्मा (ऋणी ), देवेंद्र शर्मा

अनिल कुमार ( जमानतदार )

(सह-ऋणी)

L9001061124518110

( सह-ऋणी ), श्रीमती सावित्री देवी

स्थानः नई दिल्ली

#### **PUBLIC NOTICE**

[Under Section 102 of the Insolvency and Bankruptcy Board Code, 2016 and as per the Directions of the Hon'ble NCLT, New Delhi Bench, Court-III]

	FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MR. YOGESH BHATIA (Personal Guarantor of M/s. Gallium Industries Ltd – dissolved)					
S. No.	RELEVANT PARTICULARS					
1.	Name of Personal Guarantor [PG]	Mr. YOGESH KUMAR BHATIA S/o Sri Lal Chand Bhatia				
2.	Address of the registered office / principal office / Residence of PG	H. No. 24 IInd Floor Ishwar Nagar, New Friends Colony, New Delhi				
3.	Name and CIN of the Corporate Debtor(s)	M/s. Gallium Industries Limited – dissolved CIN: U74899DL1985PLC021377				

4. Date of commencement of Insolvency 12.02.2025 Resolution Process Ms. Harmeet Kaur Reg No.: IBBI/IPA-002/IP-N00948/2020-2021/13076 AFA No: AA2/13076/02/090524/202742 AFA Valid till: 30.06.2025

televant Forms

राठी स्टील एड पॉवर लिनिटेड पंजीकृत कार्यालयः 24/1–ए, मोहन सहकारी औद्योगिक एस्टेट, मधुरा रोड विहार, नई दिल्ली–110044, CIN - L27109DL1971PLC005905

वेबः www.rathisteelandpower.com, ई–मेलः investors@rathisteelandpower.com

दूरभाषः 011- 40512426

31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तीसरी तिमाही और नौ महीने के लिए

अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम का विवरण

उपरोक्त सूचना भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ)

विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार है।

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 ( 1) कब्जा सूचना)

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ( ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक ) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम

2002 (2002 का 54) और प्रतिभृतिहित प्रवर्तन नियम, 13(12) का सपठित नियमों के नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणीयों को मांग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार

रोड **क्षेत्रफल 110 वर्ग गज** 

प्रदेश **क्षेत्रफल 95 वर्ग गज** 

जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश **क्षेत्रफल 60 वर्ग गज** 

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिसः 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

मेसर्स राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड (''कंपनी'') के निदेशक मंडल ने

शुक्रवार, 14 फरवरी, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और नौ महीने के लिए कंपनी के असंपरीक्षित

उपरोक्त वित्तीय परिणाम सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ कंपनी की

वेबसाइट https://rathisteelandpower.com/Investors#9 और स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध हैं और

11 अक्टबर 2024

₹ 1087553/-

रु. दस लाख सत्तासी हजार पांच सौ

तिरपन मात्र 10 अक्टूबर 2024

12 जलाई 2024

रु. तेरह लाख पचास हजार चार सौ

11 अक्टबर 2024

₹ 1226404/-

ਸਾਂਕ ਕ ₹ 142085/-

रु. एक लाख बयालीस हजार पचासी

14 नवम्बर 2024

₹ 960342/-

रु. नौ लाख साठ हजार तीन सौ बयालीस

मात्र व ₹ 898052/-

रु. आठ लाख अट्ठानवे हजार बावन माः 12 नवम्बर 2024

ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा  $1\,3$  की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

o. बारह लाख छब्बीस हजार चार सौ चार

चौंतिस मात्र 11 जुलाई 2024

QR कोड को स्कैन करके भी एक्सेस किया जा सकता है।

Address and e-mail of the Resolution Address: C-10, LGF Laipat Nagar III, Delhi-110024 professional, as registered with the Board

Address and e-mail to be used for correspondence with the Resolution

Address: C-10, LGF Lajpat Nagar III, Delhi-110024

Email: harmeet kaur@rrinsolvency.com

Address: C-10, LGF Lajpat Nagar III, Delhi-110024

Email: yogeshbhatiapersonalinsolvency@gmail.com professional 10.03.2025

https://ibbi.gov.in/en/home/downloads tolice is hereby given that the Adjudicating Authority [National Company Law Tribunal-III] hardered the commencement of an insolvency resolution process of Yogesh Kumar Bhatia (Persona Universative of Missalialium Industries Ltd. – dissolved) on 12.02.2025 uis 100.

The creditors of Mr. Yogesh Kumar Bhatia are hereby called upon to submit their claims with process of processing the processing of the proce

"FORM B" under Insolvency and Bankruptcy Boa

of India (Insolvency Resolution Process for Persona Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019

rough electronic means, or by hand or registered post or speed post or courier. lote: Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties or imprisonment eccordance with the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and any other applicable

HARMEET KAUF RESOLUTION PROFESSIONAL IBBI/IPA-002/IP-N00948/2020-2021/1307

कृते राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड

हस्ता /-प्रेम नारायण वार्ष्णेय

प्रबंध निदेशक

(ভীआईएन: 00012709)

बंधक संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी /गैररिहायशी भिम, बिल्डिंग, स्टक्चर एवं फिक्चर

सम्पत्ति स्थित सी-95, खसरा नं. 684, खाता नं. 320, न्यू डिफेंस कॉलोनी, भोपुरा

साहिबाबाद, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, सीमाएँ - पूर्व: शर्मा जी के प्लॉट का शेष

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी /गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्टुक्चर एवं फिक्चर

प्तम्पत्ति स्थित खसरा नं.-870, ए-4, वृंदावन गार्डन, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश,

201003 सीमाएँ - पर्वः अन्य संपत्ति. पश्चिमः अन्य संपत्ति. उत्तरः अन्य संपत्ति. दक्षिण

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी ⁄ गैररिहायशी भिम, बिल्डिंग, स्टक्चर एवं फिक्चर

सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 939, प्लॉट नं. 2, श्री राम नगर कॉलोनी, पसौंडा परगना लोनी

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी /गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्टक्चर एवं फिक्चर

सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 966, प्लॉट नं. एम 104, फ्लेट नं. यूजी 2, मंदिर के पास एम पी

एन्क्लेव, ग्राम राजापुर, गाजियाबाद, तहसील- नोएडा, जिला- गौतम बुद्ध नगर, उत्तर

भाग, पश्चिम: रास्ता, उत्तर: प्लॉट नं. 96, दक्षिण : रास्ता **क्षेत्रफल 100 वर्ग गज** 

## ्री) बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

दिनांक : 15.02.2025, स्थान : नई दिल्ली

2/10, अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली— 110002, M :- +91-9818555419, फोन:- 011-23262953, ईमेलः vjansa@bankofbaroda.com

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सर्रुफ्सी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है।

बैंक ऑफ बड़ौदा से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन पी ए हो चके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी. उसकी विस्तत मांग सचन निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभुतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णि दिनांकों को पंजीकृत डाक पावती सहित / स्पीड पोस्ट / कोरियर द्वारा आप सभी को भेजी गयी थी, जिसकी पावती प्राप्त नही हुई / जो बिना तामील वापस प्राप्त हो गर्य है। मांग सुचना निम्नांकित दिनांकों में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था, कि आपके द्वारा सुचना में दर्शायी राशी 60 दिनों के अन्दर जमा नही करायी गयी तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक सम्पत्तियाँ जो कि निम्नलिखित ऋणियों ⁄ जमानतदारों के नाम है, उनका आधिपत्य ले लिया जायेगा और कब्ज सूचना / ई—नीलमी सूचना में कर्जदार व गारंटरों की फोटो प्रकाशित की जायेगी। बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है:–

ı	कर्जदार / गारन्टर के नाम	मांग सूचना की तारीख	सिक्योर्ड
ı	एनपीए की तारीख	बकाया राशि	आस्तियों का विवरण
ı	1) श्री उज्जवल जैन पुत्र श्री मनीष जैन,	03-02-2025	श्री मनीष जैन पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र परशाद उर्फ श्री राजेन्द्र
ı	आवासीय पता : एसँ—378, भू तल, ग्रेटर कैलाश—1, डिफेंस		परशाद जैन के नाम ग्राम याकूत पुर, ग्रेटर कैलाश पार्ट–1 के
ı	कालोनी, दिल्ली—1100 <del>4</del> 8	रू. <b>1,44,06,390.24</b> (रूपये एक	
ı	2) श्री मनीष जैन पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र प्रसाद जैन,	करोड़ चौवालीस लाख छह हजार तीन सौ	आवासीय कालोनी में स्थित बेसमेंट और स्टिल्ट युक्त जी+3
ı	आवासीय पता : एस—378, भू तल, ग्रेटर कैलाश—1, डिफेंस	नब्बे तथा पैसे चौबीस मात्र) +	मिजिले भवन में आवासीय फ्लैट नंबर 378, ब्लॉक—एस (छत के
ı	कालोनी, दिल्ली—110048	·	अधिकार नहीं) प्लॉट एरिया परिमाप 208 वर्ग गज (173.91 वर्ग
ı	3) श्रीमती श्वेता जैन पत्नी श्री मनीष जैन, आवासीय पता :	03-02-2025 की प्रभावी तिथि से भावी	1 1000 1010 10000 31011 1 2 410 1141 110 110
ı	एस—378, भू तल, ग्रेटर कैलाश—1, डिफेंस कालोनी,	ब्याज + एनपीए की तिथि से वसूली तक	यूटिलिटी रूम हैं, के सम्पूर्ण बेसमेंट तथा भू तल का
ı	दिल्ली—110048	लागत, अन्य प्रभार और खर्चे ।	ईएमडीटीडी चौहद्दी : उत्तर : प्लॉट नंबर एस-376 दक्षिण :
ı	ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि 02-02-2025	लागत, जन्य प्रमार जार जय	प्लॉट नंबर एस—380 पूरब : सर्विस रोड, पश्चिम : रोड

टेलिटी रूम हैं, के सम्पूर्ण बेसमेंट तथा भू तल क मडीटीडी चौहददी : उत्तर : प्लॉट नंबर एस–376 दक्षिण टि नंबर एस—380 पूरब : सर्विस रोड, पश्चिम : रोड

उक्त वर्णित ऋणियों 🖊 जमानतदारों को सलाह है कि (1) अधिक एवं विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से मुल नोटिस प्राप्त कर लें (2) मांग सचना में दर्शायी गर्य बकाया राशि ब्याज एवं खर्चे आदि सहित मांग सूचना की दिनांक के 60 दिनों के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें।

## जी. के. कंसलटेंट्स लिमिटेड

सीआईएनः L74140DL1988PLC034109

पंजीकृत कार्यालयः 302, जी. के. हाउस, 187–ए, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–110065

ई-मेल : akg\_gkcl@yahoo.co.in वैबसाईट : www.gkconsultantsltd.com फोन: 011-26489299, 26489431 फैक्स: 011-26489299

## 31 दिसम्बर. 2024 को समाप्त तीसरी तिमाही एवं नौ माह के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

कंपनी के निदेशक मंडल ने 14 फरवरी, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में 31 दिसम्बर 2024 को समाप्त तीसरी तिमाही एवं नौ माह के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को मंजुरी दी।

वित्तीय परिणाम, वैधानिक लेखा परीक्षकों की सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वैबसाईट <u>https://gkconsultantsltd.com</u> पर उपलब्ध हैं और दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी इन्हें देखा जा सकता है।



जी. के. कंसलटेंट्स लिमिटेड के लिए दिव्या मालिनी गुप्ता प्रबंध निदेशक डीआईएन : 00006225

WAVE INC.

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 14.02.2025

## CHADHA PAPERS LIMITED

REGD. OFFICE: - CHADHA ESTATE, NAINITAL ROAD, BILASPUR, RAMPUR, UTTAR PRADESH-244921 (UP) CIN: L21012UP1990PLC011878

Email: chadhapapersltd@gmail.com, Website: - www.chadhapapers.com

Ph: 91053-88000

EXTRACTS OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON 31ST DECEMBER, 2024 (Rs. in Lakhs except EPS CONSOLIDATED STANDALONE 31.12.2024 30.09.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023 | 31.03.2024 | 31.12.2024 | 30.09.2024 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.03.202 (Quarte (Quarter (Year (Quarter (Quarte Particulars 4 8 1 ended) ended) ended) Months Months ended) ended) ended) ended) Months Months ended) ended) ended) ended) ended) Un-audited Un-audite (Audited) n-audited Un-audited) (Audited Un-audite Un-audited) Total Income from Operations 17440.47 14494.20 8237.13 38365.94 43875.30 60931.79 Net Profit / (Loss) for the period (before Ta: 5073.55 14494.20 8237.13 17440.47 38365.94 43875.30 60931.79 (266.67 214.84 1110.98 380.62 3796.45 Exceptional and/or extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (266.67) 214.84 1110.98 380.62 3796.45 5073.55 (266.67 214.84 1110.98 380.62 3796.45 5024.92 (after Exceptional and/or extraordinary item Net Profit / (Loss) for the period after tax (216.03 127.89 813.02 230.25 2808.0 3728.64 (216.03 127.89 813.0 230.25 2808.08 3680.0 after Exceptional and/or extraordinary ite Total Comprehensive Income for the peri [Comprising Profit / (Loss) for the period 127.55 813.02 127.55 813.02 2808.08 3678.68 216.35 229.26 2808.08 3727.31 (216.35 229.26 (after tax) and Other Comprehensive ncome (after tax)] Equity Share Capital (Face Value of Rs 1020.40 1020.40 1020.40 1020.40 1020.40 1020.40 1020.4 1020.40 1020.40 1020.40 1020.40 1020.4 Reserves (excluding Revaluation Reserve the previous year 8. Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)

12 फरवरी

2025

12 फरवरी

12 फरवरी

The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors in their respective meetings held on Feb 14, 2025 The above standalone financial results for the quarter ended 31st December, 2024 have been reviewed by the Statutory Auditors as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015.

As the Company has a single reportable segment, the segment wise disclosure requirement of Ind AS 108 on operating segment is not applicable to it.

Financial Results for this period have been prepared and presented in accordance with the recognition and measurement principles of Ind AS-34\*Interim Investment in impact of this Financial Reporting

The figures for the previous periods have been regrouped / rearranged, wherever necessary.

Lease pertaining t o part of factory land at Bilaspur(Rampur) where the paper manufacturing unit is located has expired. The said land belonging to promoter s and the family members was on lease for 3 period of 30 years since 1991. The management is abreast of the matter and in process of getting the lease renewed. The company has not received any communication from the lessor(s) for eviction thereof and, therefore, there is no material implication on the operations of the company.

Amanbir Singh Seth DIN-01015203

## Date: 14.02.2025

वैलगा फूड्स लिमिटेड कारपोरेट पहचान संख्या (CIN)- L15419UP1983PLC005918

पंजीकृत कार्यालयः श्यामनगर, बदायूँ,- 243601, उत्तर प्रदेश, E: ho@welgafoods.com W: www.welgafoods.com, M: +91 7080172555 31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही के अनुअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का कथन

	३१ दिसम्बर, २०२४ का सम	गप्त ।तमाहा क	अनअकाक्षत ।व	त्ताय पारणामा	का कथन		(रू० लाखें में	
क्र०	विवरण	समाप्त तिमाही समाप्त नौमाही					समाप्त वार्षिक	
सं०		31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2023	
		(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	
I	परिचालन से कुल आय	851.60	979.61	534.78	2,595.64	1,750.11	2,603.80	
II	विशिष्ट मदों एवं कर से पहले नैट लाम/(हानि), कर एवं/अथवा विशिष्ट मदों	44.88	58.98	-84.71	131.30	-253.95	-79.37	
III	विशिष्ट मदों एवं कर से पहले नेट लाभ/(हानि), एवं/अथवा विशिष्ट मदों	44.88	58.98	-136.91	131.30	-306.15	-131.57	
IV	कर के बाद नेट लाम/(हानि), विशिष्ट मदों एवं/अथवा विशिष्ट मदों	44.88	58.98	-136.91	131.30	-306.15	-131.57	
V	अविध के लिए कुल व्यापक आय (अविध के लिए शामिल लाम/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय)	44.88	203.17	-136.91	131.30	-306.15	-102.98	
VI	चुकता इक्वीटी शेयर कैपीटल (सममूल्य रू० 10/- प्रत्येक)	326.56	326.56	326.56	326.56	326.56	326.56	
VII	रिजर्व (रिवेल्सूवेसन रिजर्व को छोड़कर जैसा पिछले वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाया गया)	-	-	-	-	-	-292.29	
VIII	प्रति इक्वीटी शेयर आय (सममूल्य रू० 10/- प्रत्येक) (वार्षिकीकृत नहीं)							
	- मूल (ক্ত০)	1.37	1.81	-4.19	4.02	-9.38	-3.15	
	तरल (रू०)	1.37	1.81	-4.19	4.02	-9.38	-3.15	

- उपरोक्त परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल की **फरवरी 14, 2025** को सम्पन्न उनकी बैठक में अनुमोदित किये गये और कम्पनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा "सीमित समीक्षा" की गई। कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी–एएस) साथ में पठित (भारतीय लेखा मानकों) नियमन, 2015 के नियम 3 के एवं उसके बाद यथा संशोधित प्रासांगिक नियमों के अनुसार वित्तीय परिणाम तैयार किये गये। वैधानिक लेखा परीक्षकों इन परिणामों की
- 2 कम्पनी का परिचालन एकल खण्ड यानि जमी हुई सब्जियों के प्रसंस्करण एवं संरक्षण से सम्बन्धित है।
- पिछली अवधियों के आकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, पुनः समूहित किया गया है।
- कम्पनी प्रसंस्कृत और संरक्षित सब्जियों के व्यवसाय में लगी है, जो एक मौसमी उद्योग है, कम्पनी का प्रदर्शन तिमाही–दर तिमाही अलग होता है और तिमाही के वित्तीय परिणाम कम्पनी
- के वार्षिक परिणामों के प्रतिनिधि नहीं करते हैं। 5 प्रबन्ध निदेशक ने उनका उपहार दावा छोड़ दिया है।

ग्यान प्रकाश अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक DIN NO. 00184539

Chairman & Director DIN: 00003305

#### Integrated Capital Services Limited CIN: L74899DL1993PLC051981

ऋणियों द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणियों को तथा सामान्य जन कों एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 1 3 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 2 0 0 2 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में उपरोक्त तालिका में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ग्रहण कर लिया है।

ऋणियों को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि तथा आगे का ब्याज एवं कुल मुगतान होने तक ''एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड''(ए शेड्यूल्ड कॉमिशियल बैंक) के प्रभार के अधीन होगा।

Read, Office: 606 New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi 110 001 idated Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended Dec

(Rs. Lakhs, except EPS **Particulars** 3 months Year to date figure of Corresponding 3 months previous year current period ended ended in the previous period 31.12.202 31.12.2023 Unaudited Audited 1 Total income from operations 21.30 47.34 61.11 (11.18) Net profit for the period (before tax) (8.52)1.81 (7.88)Net profit for the period (after tax) (2.44)(12.21)Total comprehensive income [comprising profit/loss for the period 45.53 (2.44)(12.21)after tax and other comprehensive income (after tax)] 355.84 355.84 355.84 355.84 Paid up equity share capital (Face value of Re. 1/- each) 6 Earnings per share (face value of Re. 1/- each) (not annualised) - Basic and Diluted earnings per share (in Rs.) (0.01)(0.03)(0.03)0.13

The Unaudited consolidated financial results were reviewed by the Audit Committee at its meeting held on February 14, 2025, and approved by the Board of Director at its meeting held on February 14, 2025.

The Statutory Auditors of the Company have carried out the limited review of the aforesaid standalone and consolidated financial results for the quarter and nine months ended on December 31, 2024 in accordance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, and the Company hereby declares and confirm that Auditor's Report on the unaudited standalone financial results of the Company is with unmodified opinion.

In line with the provisions of Ind AS-108 'Operating Segments' as notified under the Companies (Ind AS) Rules, 2015, and as provided in section 133 of the Companies Act, 2013, the operations of the Company fall under the head "providing consultancy and advisory services", which is considered to be the only reportable segment by the management. Pursuant to change in Object Clause of the Company, the activities of the Company are services in the nature of advisory in matters related to Insolvency

The Company's application to obtain "In Principle" approval at first instance as IPE will be submitted to IBBI after appointment of Managerial Personnel. The Company will give effect to conditions, if any, as may be provided by IBBI, which shall enable the Company to obtain final registration as an IPE.

The Company has a policy to carry out assessement of Fair Value of its assets (property, plant and equipment; and investments) at the earlier of 24 months (now falling

due on June 30, 2025) or a Significant Change in Business circumstances after the last review, and the assets have accordingly been assessed. The Company values its Non-Current Liabilities on Fair Value as at each reporting date. The Company has opted for the publication of consolidated financial results during this financial year. The standalone and consolidated financial results of the Company

for the year ended March 31, 2024, are available at the Company's website, www.raas.co.in and BSE Limited website, www.bseindia.com.

The Chief Executive Officer and Chief Financial Officer have certified that the financial results for the period ended December 31, 2024, do not contain any false or misleading

statement or figures and do not omit any material fact which may make the statements or figures contained therein misleading.

SI. No.	Particulars	Nine months ended December 2024 (Unaudited)	Ouarter ended December 2024 (Unaudited)
(i)	Total Income from operation	5.39	1.63
(ii)	Profit for the period before tax	(24.46)	(12.44)
(iii)	Profit for the period after tax	(19.29)	(6.85)
(iv)	Other comprehensive income/(loss)	-	-
(v)	Total comprehensive income/(loss) [comprising profit/loss for the period after tax and other comprehensive income (after tax)] (iii+iv)	(19.29)	(6.85)



प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

The figures for the previous quarter/year have been regrouped / rearranged, wherever necessary, to confirm to the current quarter/year's classification and presentation By Order of the Board Integrated Capital Services Limited

Dated:February 14, 2025 Place: New Delhi











स्थान : गुरूग्राम दिनांक : फरवरी 14, 2025







